



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 754 राँची, बुधवार

1 अगस्त, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

12 फरवरी, 2018

संख्या-5/आरोप-1-10/2018-137 (HRMS)--श्री अभय कुमार झा, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच) अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा के विरुद्ध गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-399, दिनांक 18 जनवरी, 2018 द्वारा श्री कुमार का विधि व्यवस्था के प्रभारी पदाधिकारी रहते हुए, कर्तव्य के प्रति लापरवाही, शिथिलता बरतने, मुख्यालय से बाहर रहने एवं बहरागोड़ा में घटित बड़ी घटना की उपेक्षा कर विलम्ब से घटना स्थल पर पहुँचने संबंधी आरोपों हेतु निलंबित कर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने संबंधी अनुशंसा किया गया है ।

Sr No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	ABHAY KUMAR JHA (JHK/JAS/272)	Suspension order of Sri Abhay Kumar Jha, J.A.S	12/02/2018

2. अतः श्री झा को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची निर्धारित किया जाता है। जहाँ वे विभागीय परिपत्र सं०- 3838, दिनांक 22 मार्च, 2017 के अनुपालन में उपस्थिति करेंगे तथा उपस्थिती के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,

संयुक्त सचिव

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2502
